



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

21 फाल्गुन 1935 (श0)  
(सं0 पटना 286) पटना, बुधवार, 12 मार्च 2014

---

मुख्य अभियंता-2 पटना  
ग्रामीण कार्य विभाग  
(हार्डिंग रोड बैरक सं0-2 पटना)

आदेश

10 जनवरी 2014

सं0 38—सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-5868 दिनांक 10.04.13 एवं विभागीय ज्ञापांक-4589 दिनांक 30.04.13 से प्राप्त केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की बैठक दिनांक 14.03.13 को स्व0 इन्दु भूषण विद्यार्थी, भूतपूर्व आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रथम पुत्र श्री अभिषेक भूषण विद्यार्थी को बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के अन्तर्गत रिक्त निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड पे रू0 1900 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है।

2. तदनुसार श्री अभिषेक भूषण विद्यार्थी, ग्राम सरिस्ताबाद (अलकापुरी) पो0 अनिसाबाद, थाना-गर्दनीबाग, जिला-पटना को निम्न वर्गीय लिपिक के वेतनमान-पी0वी0-I (5200-20200) ग्रेड-पे 1900 में सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों सहित पूर्णतः अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, हार्डिंग रोड, पटना के अधीन रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

3. स्व0 इन्दु भूषण विद्यार्थी के आश्रित परिवार के सदस्यों के भरण-पोषण का दायित्व श्री अभिषेक भूषण विद्यार्थी पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वहन पूर्ण तत्परता से नहीं करने पर इसे गंभीर कदाचार मानते हुए नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके साथ ही उत्तरदायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों का समुचित अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

4. योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।
5. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
6. उन्हें छः माह के अन्दर टंकण एवं कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा। योगदान के साथ शादी में किसी प्रकार का दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
8. इनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/घोषणाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

आदेश से,  
(ह0) अस्पष्ट,  
मुख्य अभियंता-2 ।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 286-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>